

पहाड़ मर रहा है

प्रवीण भट्ट "यायावर"¹

पहाड़ हमेशा छले गए,
पहाड़ी सदा दले गए
आये कुछ सफेदपोश
झुनझुना लेकर विकास का
दिखाए सपने
खाई कसमें
किये गए लम्बे करार।।

करार में थी चौड़ी सड़कें
लम्बे पुल
जो उन नदियों के ऊपर थे
जो जीवन थी पहाड़ का
बनने लगी फिर लम्बी सुरंगें
बड़े बांध
जिन्होंने बांधा उन नदियों के किनारों को
जो जीवंत करती थी पहाड़ों को।।

फिर कुछ आवाजें उठी
वे चिल्लाते रहे
पहाड़ मर रहा है
वो बिखर रहा है
उसकी छाती में
दरारों का जाल दिख रहा है
उसे बचाओ उसे बचाओ।।

¹ सहायक प्राध्यापक, विभाग प्रभारी, हिन्दी विभाग, रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी, उत्तराखंड, (भारत)

फिर कुछ लोग
दौड़कर आये
दौड़ना तो दिखावा था
वे उन उठती आवाजों को
कर गए अनसुना
चिल्लाने पर उनके वे
बन गए बहरे
उन्होंने लिखा फिर
कागजों पर
सब ठीक है, सब ठीक है।।

पहाड़ कराहता रहा
उसकी छाती खोदी जा चुकी थी
उसके कान बहरे हो गए
शोर से मशीनों के
उसकी धमनियों में
बहने वाली नदियां
कैद थी उन बांधों में
शरीर छलनी था बड़े विस्फोटों से।

आज पहाड़ दम तोड़ रहा है
फिर भी सब मौन हैं
उसकी मृत्यु पर
बस कुछ आवाजें हैं
जो उससे टकराकर
लौट रही है वापस
बस अब वही आवाजें हैं।
पहाड़ मर रहा है।
पहाड़ मर रहा है।
